



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 भाद्र 1932 (श0)
(सं0 पटना 641) पटना, बुधवार, 1 सितम्बर 2010

मत्स्य निदेशालय

कार्यालय-आदेश

24 अगस्त 2010

सं0 म0/स्था0आ0र0प0(अधी0)-12/10-1544—जिला अनुकम्पा चयन समिति, दरभंगा की दिनांक 24 अप्रिल 2010 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में समाहर्ता दरभंगा के ज्ञापांक-04/मु0/स्था0 दिनांक 24 अप्रिल 2010 द्वारा संसूचित अनुशंसा एवं उप मत्स्य निदेशक, दरभंगा परिक्षेत्र, दरभंगा के पत्रांक 140 दिनांक 25 मई 2010 के आलोक में श्री विजय कुमार राय, पिता-स्व0 नारद राय, भूतपूर्व मछुआ, उप मत्स्य निदेशक कार्यालय, दरभंगा परिक्षेत्र, दरभंगा को विभाग के अधीन वेतन बैंड 4440-7440 एवं ग्रेड-पे 1400 रु0 में रिक्त चतुर्थवर्गीय मछुआ के पर पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उन्हें जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, दरभंगा के अधीन अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. यह नियुक्ति मृत सरकारी सेवक के आश्रित के भरण-पोषण के निमित्त की जाती है। नवनियुक्ति कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का दायित्व पूरी जिम्मेवारी के साथ निर्वाह करेंगे अन्यथा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए इनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

3. संबंधित कर्मचारी को योगदान के पूर्व किसी असैनिक शल्य चिकित्सक से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० 1919, दि० 20 जनवरी 1976 के शर्तानुसार दहेज संबंधित घोषणा पत्र यदि विवाहित नहीं हो तो योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

5. किसी भी समय अगर यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो उस स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द करते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० 2082, दिनांक 01 अप्रैल 2003 के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, दरभंगा तत्काल औपबंधिक रूप से तीन माह के लिए योगदान स्वीकृत करेंगे तथा नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षरित फोटो का मिलान एवं संपुष्टि कराए जाने तथा फोटो सहित सेवा पुस्त से मिलान किए जाने के बाद योगदान अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

7. नवनियुक्त कर्मी की सापेक्ष वरीयता चतुर्थ वर्ग संवर्ग में मानी जाएगी।

8. पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,
निदेशक, मत्स्य।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 641-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>